



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई

Indian Audit & Accounts Department

Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Mumbai

वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और कुपो करेंसी के लिए ज्ञान केंद्र

Knowledge Centre for Commercial Audit & Crypto  
Currency



सूचनापत्र /Newsletter



ज्ञान और नवजीवन के सूर्योदय का सुप्रसंग

Celebration of the Sunrise of Knowledge and New Life

अंक 27

अप्रैल 2024- से सितंबर 2024

विषय सूची

खंड 1: महानिदेशक की कलम से .....	2
खंड 2: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई में सितंबर 2024 के अंत तक होने वाले अर्धवार्षिक प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों का विवरण .....	3
(i) संचालित किए गए प्रशिक्षण .....	3
(ख) ईडीपी पाठ्यक्रम .....	4
(ii) क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई के महत्वपूर्ण कार्य/ घटनाक्रम .....	4
खंड 3: फोटो गैलरी .....	6
खंड - 4: ज्ञान केंद्र विषयों से संबन्धित कैग रिपोर्ट में महत्वपूर्ण आपत्तियों का सार .....	9
COMPENDIUM OF COMMENTS .....	9
खंड 5 : ज्ञान केंद्र विषयों में रुचि का विकास .....	19
खंड 6: सूचना पत्र वर्ग पहली (सितंबर 2024) .....	22
.....	23
खंड 7: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई के स्टाफ एवं उपयोगकर्ता कार्यालयों के स्टाफ द्वारा लिखित/ संकलित हिंदी के लेख/ कविता। .....	23

Contact Us :-

RCB&KI, Mumbai, 5<sup>th</sup> Floor, RTI Building, Plot No. C-2, GN Block,

Behind Asian Heart Institute, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051;

Ph-022-26521902; Fax-022-26522627; e-mail: [rtimumbai@cag.gov.in](mailto:rtimumbai@cag.gov.in); Website: <https://cag.gov.in/rti/mumbai/en>

खंड 1: महानिदेशक की कलम से .....

[Click here for going  
back to cover page](#)



Dear Reader,

I am glad to release this newsletter for the half year ending September 2024..

During half year April 2024 – September 2024, RCB&KI Mumbai conducted 26 training programmes including one training programmes on Knowledge Centre topics. We also conducted one six-week induction training programme for newly promoted AAOs and Supervisors during the above period and plan to conduct a couple more during the next half year in view of the high number of promoted AAOs and supervisors.

We are happy to inform that we hosted delegates from SAI Uganda from 1-5 July 2024. The delegates had visited as part of the process of developing a standardized curriculum to guide their office's recruitment, performance management and capacity building programmes.

Ms. Keerti Tewari, ADAI (CB) & CKO visited RCB&KI Mumbai from 4-6 July 2024 to interact with the delegates of SAI Uganda and also oversee the progress of the training and capacity building activities of RCB&KI Mumbai.

With the continued active support of our user offices, RCB&KI Mumbai could conduct all the training programmes as scheduled in the calendar and we would like to place our sincere gratitude to all the user offices and also the Chairperson and members of Regional Advisory Committee to steer the efforts of the Institute with their valuable guidance and directions.

I look forward to continue to communicate with you regarding the performance and achievements of RCB&KI, Mumbai through the medium of this newsletter in future.

We welcome inputs from readers to improve the newsletter.

Regards,  
**Abdul Rauf**  
**Director General**  
**RCB&KI, Mumbai**

खंड 2: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई में सितंबर 2024 के अंत तक होने वाले अर्धवार्षिक प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों का विवरण

[Click here for going back to cover page](#)

(i) संचालित किए गए प्रशिक्षण  
(क) सामान्य पाठ्यक्रम, ज्ञान केंद्र सहित

SNo	Name of course	Number of participants including number of IA&AS participants given in brackets
1.	सेवानिवृत्ति-पूर्व पाठ्यक्रम Pre-retirement course (Officials retiring within the year or next year -Group A, B or C)	40
2.	ज्ञान केंद्र विषय - समेकित वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम KC Topic - All India Training Programme on Audit of Consolidated Financial Statements of Companies	39(5)
3.	स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा Audit of Autonomous Bodies	22
4.	धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का पता लगाने की तकनीक की लेखापरीक्षा Training Programme on Audit of Fraud and Fraud detection techniques (Sup/AAOs to Sr. AOs)	19
5.	एमसीटीपी स्तर – 2 / MCTP Level – 2	21
6.	अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश 2016 के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा (वरिष्ठ एओ के लेखा परीक्षक) Compliance Audit as per Compliance Auditing Guidelines, 2016 (Auditors to Sr. AOs)	24
7.	स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा पर कार्यशाला / Workshop on Audit of Autonomous Bodies	16
8.	सी-1 वित्तीय प्रबंधन / C-1 Financial Management	752
9.	रक्षा क्षेत्र में सरकारी कंपनियों की वाणिज्यिक लेखापरीक्षा / Commercial Audit of Government Companies in the Defence Sector	42
10.	एमसीटीपी स्तर – 3 / MCTP Level – 3	37
11.	प्रशासनिक मुद्दे / Administrative Issues	30
12.	डी आर ए ए ओ पर्यवेक्षकों के लिए प्रेरक प्रशिक्षण/डी पी ए ए ओ / Orientation course for DRAAOs/DPAAOs/Supervisors	45
13.	मॉड्यूलर प्रशिक्षण ऑडिट रिपोर्टिंग Modular Training on Audit Reporting (Auditors/Accountants to Sr. AOs)	24
14.	गुड्स एंड सर्विस टैक्स / Goods and Service Tax	29
15.	डी आर ए ए ओ पर्यवेक्षकों के लिए प्रेरक प्रशिक्षण/डी पी ए ए ओ / / Orientation course for DRAAOs/DPAAOs/Supervisors	52

[Click here for going  
back to cover page](#)

SNo	Name of course	Number of participants including number of IA&AS participants given in brackets
16.	वित्तीय साक्षांकन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (FAAM सहित, VLC का उपयोग कर लेखापरीक्षा और SFAR की तैयारी) (सीनियर एओ के लेखापरीक्षक/ लेखाकार) Training Programme on Financial Attest Audit Guidelines (including FAAM, audit using VLC and preparation of SFAR) (Auditors/ Accountants to Sr. AOs)	27
	<b>Total</b>	<b>1219(5)</b>

(ख) ईडीपी पाठ्यक्रम

SI No	Name of course	Number of participants including number of IA&AS participants given in brackets
1.	उन्नत एमएस एक्सेस / Advanced MS Access	21
2.	आइडिया / IDEA	14
3.	सरकार में बजटीय प्रक्रिया, iBEMS का उपयोग आईए और एडी और पी एफ एम एस के साथ एकीकरण Budgetary process in the Government, usage of iBEMS in IA & AD and integration with PFMS (all cadres)	32
4.	ओ आय ओ एस / OIOS	24
5.	आइडिया / IDEA	20
6.	एडोब कैप्टिवेट / Adobe Captivate	22
7.	ई-प्रोक्योरमेंट (जीईएम और सीपीपीपी) और ईटेंडरिंग (सीपीपीपी) का परिचय / Introduction to e-procurement (GeM and CPPP) and etendering (CPPP)	28
8.	ई-ऑफिस / e_office	31
9.	ओरेकल बैकएंड-एसक्यूएल / Oracle Backend-SQL	27
10.	पावर पिवट के साथ एमएस एक्सेल (उन्नत) / Advanced MS Excel with Power Pivot	27
	<b>Total</b>	<b>246</b>

(ii) क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई के महत्वपूर्ण कार्य/ घटनाक्रम

- a. RCB&KI Mumbai hosted delegates from SAI Uganda from 1-5 July 2024. The delegates had visited as part of the process of developing a standardized curriculum to

guide their office's recruitment, performance management and capacity building programmes.

- b. Ms. Keerti Tewari, ADAI (CB) & CKO visited RCB&KI Mumbai from 4-6 July 2024 to interact with the delegates of SAI Uganda and also oversee the progress of the training and capacity building activities of RCB&KI Mumbai.

### खंड 3: फोटो गैलरी

#### योग दिवस

दिनांक 21 जून 2024 को क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया जिसमें श्री कुलदीप सिंह, कनिष्ठ अनुवादक द्वारा योगाभ्यास करवाया गया। इस कार्यक्रम में कार्यालय, महानिदेशक, लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई के स्टाफ द्वारा भी भाग लिया गया।



दिनांक 15 अगस्त 2024 को क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई एवं कार्यालय, महानिदेशक, लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई द्वारा 78वां स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया।



## हिंदी पखवाड़ा

दिनांक 14 सितंबर से 29 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत 14-15 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस और चतुर्थ संयुक्त सम्मेलन से हुई जिसमें श्री कुलदीप सिंह, कनिष्ठ अनुवादक ने भाग लिया। राजभाषा पखवाड़े के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं जैसे अनुवाद प्रतियोगिता, सही शब्द पहचानो और मुहावरे प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें सभी कार्मिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान के कुछ छायाचित्र:-



टेबल टेनिस ज़ोनल टूर्नामेंट (पश्चिम ज़ोन) वर्ष 2024 में क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई कार्यालय के श्री पारितोष चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक





खंड - 4: ज्ञान केंद्र विषयों से संबन्धित कैग रिपोर्ट में महत्वपूर्ण आपत्तियों का सार

## COMPENDIUM OF COMMENTS

### Significant comments from State Finance Audit Reports

#### Government of Kerala Report No. 1 of the year 2024 of C&AG

Comments on Financial Position

##### Kerala Forest Development Corporation Limited (2019-20)

###### Non-current Liabilities

###### b. Other long term liabilities (Note 5)

###### Incorrect accounting of Scheme Fund and Other Long Term Liabilities

Balance of Scheme fund (₹0.08 crore) under Other long term liabilities was arrived at after wrongly netting off ₹2.02 crore, being the receivables against the six schemes. This resulted in understatement of non-current liabilities by ₹2.02 crore with corresponding understatement of current assets.

(Government of Kerala Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 2.5.1.2 SI No.1)

##### Kerala State Industrial Development Corporation Limited (2020-21)

###### Other financial liabilities (Note 14)

Grant received for Vyavasaya Bhadratha ₹22.55 crore

###### Accounting of Payables as Grants-in-aid

This represents the amount received from Government of Kerala for supporting the existing loanees to mitigate the Covid-19 impact which the Company wrongly accounted as a grant-in-aid. Since the Government had sanctioned the amount not as a relief to the Company, reckoning the amount as grant was not correct. Instead, the fund received should have been accounted as payable to Government of Kerala till finalisation of terms and conditions.

This resulted in overstatement of 'Grant received for Vyavasaya Bhadratha' by ₹22.55 crore with corresponding understatement of amount 'Payable to Government'- under Other Non-financial liabilities (Note 17).

(Government of Kerala Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 2.5.1.2 SI No.2)

##### Kerala State Maritime Development Corporation Limited (2017-18)

Long-term loans and advances (Note 10) ₹4.25 crore

###### Non-provision of Doubtful recovery of Insurance expenses

This includes ₹0.63 crore being Hull & Machinery Insurance and P&I Insurance on TSD Sindhuraj, a vessel leased by Government of India (GoI), shown as recoverable from GoI. As the underlying agreement had expired on 22 May 2012 and GoI had not been reimbursing expenses after 2010-11 the recoverability of ₹0.63 crore is doubtful. Non provision for doubtful recovery has, therefore, resulted in overstatement of non-current assets with corresponding understatement of loss.

(Government of Kerala Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 2.5.1.2 SI No.3)

#### **Traco Cable Company Limited (2020-21)**

##### **Non-Current Assets**

**Capital work in progress ₹28.42 crore**

##### **Non-adjusting of Interest and Penal Interest waived from PPE and CWIP**

This includes ₹1.52 crore being the interest on Government loan capitalized (Property, Plant and Equipment by ₹1.06 crore and Capital Work in Progress by ₹0.46 crore) during previous years. Government of Kerala waived off the interest and penal interest accrued on Government loans up to 31 March 2019 vide order dated 05 February 2021. Accordingly, the Company took credit of the interest and penal interest as Miscellaneous Income for the year 2019-20. The interest component capitalised in Property Plant and Equipment (PPE) and Capital Work in Progress (CWIP) as mentioned above, however, remained unadjusted. This has resulted in overstatement of PPE by ₹1.06 crore and CWIP by ₹0.46 crore with a net understatement of negative balance of Reserves and Surplus by ₹1.51 crore.

(Government of Kerala Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 2.5.1.2 SI No.4)

#### Comments on Profitability

**Other income-₹ 1.15 crore Lease rent- ₹0.14 crore**

##### **Incorrect treatment in recognizing lease income in violation of AS9**

This represents the recognized portion of lease rent on 10.79 acres of land at Thiruvangoor, Kozhikode, leased out to Kerala Feeds Private Limited for a period of 30 years. As per the policy followed by the Company the entire lease rent was initially shown in the Balance Sheet as deferred income and the same was apportioned to the Profit and Loss Account equally over the lease period. The land was, however, resumed (April 2013) by the Revenue Department and leased out (September 2015) to Kerala Feeds Limited and accordingly Kerala Feeds Limited stopped payment of lease rent after 31.03.2015 and also claimed to refund the entire amount remitted to KSCDC. Considering the clear uncertainty in realizing the lease rent, the recognition of lease income for the year 2015-16 was not prudent as per AS9.

This has resulted in overstatement of other income and profit for the year by ₹0.14 crore with corresponding understatement of Advance Lease Premium under current liabilities.

(Government of Kerala Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 2.5.1.2 SI No.1)

#### **Kerala State Industrial Development Corporation Limited (2020-21)**

**Revenue from operations - Others (Note 22) ₹3.26 crore**

**Amount withdrawn from Special Reserve created as per IT Act, accounted as income**

The above represents the amount withdrawn from Special Reserve and accounted as income during the year to offset the difference between the provision created for bad debts and bad debts written off. As Special Reserve is created as an appropriation of profit earned as per the provisions of section 36(1) (viii) of Income Tax Act, withdrawal therefrom to offset the difference between provision created *vide* section 36(1) (vii a) of Income Tax Act and bad debts written off was not correct. This has resulted in overstatement of revenue from operations and profit for the year by ₹3.26 crore.

(Government of Kerala Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 2.5.1.2 SI No.2)

**Comments on Cash flow Statement**

**Kerala Police Housing and Construction Corporation Limited (2015-16)**

**Cash flow from Financing activities- (₹3.43 crore)**

**Inclusion of Provision for interest expenditure as 'cash used' under financing activities in violation of AS3**

₹3.43 crore being the provision created for interest expenditure for the period 2015-16 was included in the cash flow statement as 'cash used' under financing activities. Since there was no cash flow from this activity, the same should not have been included in the cash flow statement as required under para 40 of the Accounting Standard-3. This has resulted in overstatement of cash used under financing activities and cash flow from operating activities by ₹3.43 crore.

(Government of Kerala Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 2.5.1.2 SI No.1)

**Government of Assam Report No. 1 of the Year 2024**

**Comments on Profitability (Table 5.15)**

**Assam Power Generation Corporation Limited (FY 2022-23)**

**Booking of Current liabilities as Other Income**

The Company wrongly booked the advance (₹1.36 crore) received against 'Land Lease Charges' & 'Local Area Development Fund Charges' for the financial year 2023-24 as 'Other Income' for current year (2022-23) instead of accounting the same under 'Current Liabilities'. This has resulted in overstatement of "Profit for the year" and understatement of "Current Liabilities" by ₹1.36 crore each.

(Government of Assam Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.13.1 SI No.1)

**Assam Power Distribution Company Limited (FY 2021-22)**

**Non-creation of Regulatory Assets by crediting Profit & Loss Accounts**

The Regulator (Assam Electricity Regulatory Commission) during the truing up of tariff of the Company for the financial year 2020-21, declared (March 2022) revenue gap (deficit) of ₹561.47 crore (including interest

component: ₹ 104.26 crore) and considered for adjustment (recovery) of the same during the next year (2022-23). The Company, however, did not create corresponding 'Regulatory Assets' by crediting the 'Profit and Loss Accounts' in the current accounts (2021-22) as per the 'Guidance Note on Accounting for Rate Regulated Activities issued by ICAI'. This has resulted in understatement of 'Profit for the year' and understatement of 'Regulatory Assets' by ₹535.44 crore each (excluding the interest component of ₹26.03 crore pertaining to 2022-23) respectively.

(Government of Assam Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.13.1 Sl No.2)

#### **Assam Petro-Chemicals Limited (FY 2022-23)**

##### **Recognising Grant (Deferred Income) as Income under Other Non-Operating income in violation of Ind AS 20**

Refer 'Notes forming part of the financial statements' (Notes-34.7) regarding allotment of land (non-monetary grant) (fair market value: ₹ 7.36 crore) by the State Government in Bongaigaon, Assam for setting up of Industrial/200 TPD Formalin Plant (TPD Plant) and accounting of the said land in accordance with the provisions of Ind AS 20 (Government Grants). While the TPD Plant was under construction as on 31 March 2023, the Company estimated the 'construction period' and 'useful life' of the TPD Plant as 2 years and 25 years respectively.

As per Ind AS 20 (refer paragraphs 24 and 26), the Government Grants related to Assets (including non-monetary grants at fair value), shall be recognised as 'Deferred Income' and the same shall be recognised in profit or loss on a systematic basis over the useful life of the asset. As such, the Company was required to book the Grant (fair value of Land) as 'Deferred Income' in the Balance Sheet (Liabilities side) and after commissioning of the TPD Plant, the Company should start recognising the said Grant (Deferred Income) as 'Income' in Profit and Loss Account on a systematic basis, over the useful life of the TPD Plant (25 years). However, the Company started recognising (crediting) the Grant (Deferred Income) as 'Income' to the extent of ₹ 0.27 crore (being the 1/27th part of ₹ 7.36 crore) in the Profit and Loss Account under 'Other Non-operating Income' (Note-25) from the accounting year 2020-21 by debiting 'Other Non-Current Liabilities', despite the project still pending commissioning.

This has resulted in understatement of 'Loss for the year' by ₹ 0.27 crore with corresponding understatement of 'Accumulated loss (Other Equity Note-16)' and 'Other Non-Current Liabilities' by ₹ 0.81 crore each.

(Government of Assam Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.13.1 Sl No.3)

#### **Assam Industrial Development Corporation Limited (FY 2020-21)**

##### **Under Provision for diminution in the value of Investment**

The Company invested 1,09,28,423 equity shares of ₹ 10 each in Calcom Cement Limited. As on the Balance Sheet date the book value of each equity share of ₹ 10 in Calcom Cement Limited was ₹ 6.59 with diminution of ₹ 3.41 per share. However as against diminution of ₹ 3.73 crore (1,09,28,423 x ₹ 3.41 per share) the company has made provision of ₹ 1.63 crore only for loss of investment. This has resulted in understatement of 'Loss for the year' and overstatement of 'Non-current Investment' by ₹ 2.10 crore each.

(Government of Assam Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.13.1 Sl No.4)

**Assam Fisheries Development Corporation Limited (FY 2020-21)**

**Booking of Short Term Loans and Advances as Other Expenses to Revenue**

During the year 2020-21, the Company transferred work advance of ₹2.26 crore directly to the personal accounts of nine of its employees/officers towards execution of the AFDC Beel Development Scheme 2020-21. The work advances were subject to adjustment after submission of necessary vouchers or bills by the employees/officers.

The Company, however, instead of booking the above payments under 'Short Term Loans and Advances (Note-11)' as 'Advance against AFDC Beel Development Scheme', charged the same to revenue under 'Other Expenses (Note-17)' by creating corresponding provisions for liabilities under 'Long Term Provisions (Note-4)'. This has resulted in overstatement of the above head and 'Long Term Provisions' by ₹2.26 crore each with corresponding understatement of 'Short Term Loans and Advances' and 'Profit for the year' to that extent.

(Government of Assam Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.13.1 Sl No.5)

**Comments on Financial Position (Table 5.16)**

**Assam Power Generation Corporation Limited (FY 2022-23)**

**Non-accounting of Annual Fixed Charges (AFC) Refundable**

Regulation 48.1 of the Assam Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Multi Year Tariff) Regulations 2021 stipulates that the Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF) for full recovery of Annual Fixed Charges (AFC) from the Consumer (APDCL) shall be minimum 85 per cent for Namrup Replacement Power Project (NRPP). Regulation 52.1(b) of the above Regulations further provides that recovery of AFC below the level of NAPAF shall be on pro rata basis. The AERC, while approving Generation tariff for the financial year 2022-23, allowed AFC of ₹148.68 crore for NRPP considering NAPAF of 85 per cent. The Company recovered ₹148.68 crore (as AFC of NRPP) from APDCL for the financial year 2022-23 but it could achieve Plant Availability Factor (PAF) of 52.99 per cent only, which was below the prescribed NAPAF (85 per cent). However, it did not provide for the AFC refundable to APDCL due to underachievement of PAF. This has resulted in understatement of Current Liabilities and overstatement of Profit for the year by ₹47.59 crore each.

(Government of Assam Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.13.1 Sl No.1)

**Assam Power Distribution Company Limited (FY 2021-22)**

**Non-booking of assets created out of consumers' contribution**

The Company did not book ₹82.83 crore, being the assets created out of the consumers' contribution during the year 2021-22. This resulted in understatement of 'Property, Plant and Equipment' with corresponding understatement of 'Deferred Government Grants, Subsidies and Consumer Contribution (Note-15)' to the same extent.

# Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the Year 2024

## Comments on Profitability

### Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Limited (2021-22)

#### Accounting of CWIP as Capital Advance

Property, Plant and Equipment does not include an amount of ₹431.92 lakh towards Capital Work in Progress (CWIP), executed by Nava Raipur Atal Nagar Development Authority (NRANVP) on account of decoration of the Company's office and same was shown as Capital Advance instead of CWIP. This has resulted in understatement of CWIP by ₹431.92 lakh and overstatement of Capital Advance to the same extent.

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 SI No.1)

### Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (2021-22)

#### Non-inclusion of Depreciation on Corporate Office Building

1. Depreciation and Amortization does not include ₹62.60 lakh being the amount of depreciation on Company's corporate office building situated at Nava Raipur Atal Nagar for the years 2020-21 and 2021-22. The Company started working in the new office building from 14 December 2020 onwards; however, the same has not been capitalized resulting in understatement of Depreciation and overstatement of Profit by ₹62.60 lakh. This has also resulted in understatement of PPE and overstatement of Other Current Assets (under other advances) by ₹12.44 crore.

#### Accounting of Other Expenses as Advances (Other Current Assets)

2. Other Expenses does not include ₹68.79 lakh being the payment made to Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) towards installation of 1000 KVA transformer at Aridongari mines (₹49.60 lakh) and new service connection at Aridongari mines (₹19.20 lakh). Instead, this amount was recognised as advances (Other Current Assets) in the accounts for the year 2021-22. This has resulted in Overstatement of Other Current Assets as well as Profit and Understatement of Expenses by ₹68.79 lakh.

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 SI No.2)

### Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam Limited (2021-22)

#### Non-inclusion of Depreciation on Corporate Office Building

Depreciation and Amortization Expenses does not include ₹1.48 crore being the amount of depreciation of Company's corporate office building for the years 2018-19 to 2021-22. The building was handed over on 11 April 2018 to the Company. However, the same was not capitalized. This has resulted in understatement of depreciation and overstatement of Profit by ₹1.48 crore. This also resulted in Understatement of PPE and Overstatement of Other Non-Current Assets (Advance to Nava Raipur Atal Nagar Development Authority (NRDA) by ₹8.24 crore.

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 SI No.3)

## **Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (2021-22)**

### **Understatement of Expenses and Capital Work-in-progress**

Other current liabilities do not include ₹0.59 crore towards operation and maintenance of substations, security services, annual maintenance services etc. and ₹35.40 crore towards invoices/bills relating to various Capital Work in Progress pertaining to the financial year 2021-22 was not provided for in the financial statement. This has resulted in understatement of Other Current Liabilities to the extent of ₹35.99 crore and understatement of Capital Work-in-Progress to the extent of ₹35.40 crore. This has also resulted in understatement of Expenses to the extent of ₹0.59 crore and consequent overstatement of profit to the same extent.

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 SI No.4)

## **Chhattisgarh State Power Generation Company Limited (2021-22)**

### **Accounting of Other Expenses as Contingent Liability**

Other Expenses does not include an amount of ₹1179.88 crore that the Water Resource Department (WRD) had raised for water charges bill as per terms of agreement to the Company. The Company violated the payment terms of the ibid agreement and did not pay the water bill, rather showed it as contingent liability in its books of accounts. As the WRD had consistently billed and claimed the water charges as per the terms of agreement executed with the Company, a suitable provision for the same should have been made. Non-provision of the above resulted in understatement of Other Expenses as well as Current Liability by ₹1179.88 crore with corresponding overstatement of Profit by the same amount.

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 SI No.5)

## **Comments on Financial Position**

## **Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (2021-22)**

### **Non accounting of Loan Installment under Other Current Liabilities and Penal Interest**

Other Current Liabilities does not include ₹8.86 crore being the amount of first instalment of loan from Mineral Development Fund which was due during the year 2021-22 along with penal interest ₹62 lakh due to non-payment of interest against the loan of 2020-21. This has resulted in understatement of Current Liabilities by ₹8.86 crore as well as Other Expenses by ₹62 lakh and overstatement of Borrowings by ₹8.86 crore and Profit by ₹62 lakh.

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 SI No.1)

## **Chhattisgarh State Power Holding Company Limited (2021-22)**

### **Non-inclusion of Payables under Other Current Liabilities**

Other current liabilities do not include an expenditure of ₹118.00 lakh payable to the EDCIL (India) Limited towards work of recruitments to various posts in Chhattisgarh State Power companies in the financial year 2021-22 and bill was received in the same year but paid in financial year 2022-23. This has resulted in understatement of other current liabilities and understatement of other current assets (receivable from its subsidiaries companies) to the extent of ₹118.00 lakh.

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 SI No.2)

#### **Chhattisgarh Police Housing Corporation Limited (2021-22)**

##### **Non accounting of Guarantee Fees payable for loan under Other Current Liabilities**

Other Current Liabilities does not include ₹10.75 crore of Guarantee fees payable @ 0.5 per cent on guarantee given by Govt. of Chhattisgarh to the Chhattisgarh Police Housing Corporation Limited for loan taken from Indian Bank (₹400.00 crore) and Canara Bank (₹400.00 crore). As on March 2022, the company has neither paid Guarantee fees nor made any provision for the same. This has resulted in understatement of Other Current Liabilities by ₹10.75 crore and overstatement of Reserve and Surplus to the same extent

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 SI No.5)

#### **Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam Limited (2021-22)**

##### **Non accounting expenditure under Capital Work in Progress**

Capital Work in Progress does not include ₹3.00 crore towards expenditure incurred on Construction and Development of Residential Apartment for the employees as per the utilization certificate submitted (15 March 2021) by the Chhattisgarh Housing Board Capital Project Division (project implementing agency) which was not adjusted from the advance of ₹5.00 crore. This has resulted in overstatement of Other Non-Current Assets (Note:5 under Capital advances) by ₹3.00 crore and understatement of Capital Work-in-Progress to the same extent.

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 SI No.6)

#### **Comments on Auditor's Report**

#### **Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (2021-22)**

##### **Factual mistake in Statutory Auditor's report regarding interest payable to JV Partner**

A reference is invited to the Statutory Auditor's qualification placed at serial no.(i) of the Emphasis of Matter paragraph of the Independent Auditor's Report; wherein it has been stated that a provision of ₹66.37 crore payable to a joint venture partner M/s Lumen Engineering Private Limited towards interest on acquisition cost of land was not made in the financial statements of the company for the year 2021-22. However, the actual amount of interest payable to the JV partner was ₹72.69 crore. The Independent Auditor's Report is factually incorrect to that extent.

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 SI No.2)

#### **Chhattisgarh State Power Trading Company Limited (2021-22)**

##### **Non-Disclosure of pending litigations in Auditor's Report**

A reference is invited to item no. (B)i of Report on Other Legal and Regulatory Requirements of Independent Auditors' Report wherein it has been reported that the Company does not have any pending litigations which



would impact its financial position. However, the Company have 17 number of pending litigations as on 31 March 2022. Hence, Auditors' Report is deficient to that extent.

(Government of Chhattisgarh Report No. 1 of the year 2024 of C&AG General Purpose Financial Report Para No. 5.14.2 Sl No.3)

## **Government of Karnataka Report No. 1 of the year 2024 of C&AG**

Karnataka State Road Transport Corporation (2020-21)

### **Non-provision for the compensation payable towards Motor Vehicle Accident (MVA) claim**

- Non-provision for the compensation payable due to revised guidelines in respect of 671 accidental death cases during the period June 2018 to March 2021 has resulted in understatement of liability towards Motor Vehicle Accident (MVA) claims by ₹5.72 crore for 2020-21 and ₹25.14 crore for the previous years and understatement of loss for the year to that extent.
- Non-provision for the compensation payable in respect of 36 MVA Claim cases awarded before the end of March 2021 has resulted in understatement of liability towards MVA claims by ₹2.24 crore and understatement of loss for the year to that extent.

Karnataka State Road Transport Corporation (2021-22)

### **Non-inclusion of interest payable on enhanced compensation**

- Non-inclusion of amount of ₹2.95 crore, being the interest payable on enhanced compensation awarded by the High Court of Karnataka in respect of a land at Doddahunasuru, Hunasuru acquired for construction of bus station has resulted in understatement of liabilities, expenditure and consequent understatement of loss by ₹2.95 crore.
- Non-provision for the compensation payable in respect of 68 cases pertaining to Mandya, Mysuru Rural, Ramanagara, Chitradurga, Kolar and Bengaluru Central Division awarded before the end of March 2021 has resulted in understatement of liability by ₹2.79 crore and understatement of loss for the year to that extent.

Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (2020-21)

### **Non-provision of amounts payable as contribution to Revolving Fund under JnNURM**

- Non-provision of ₹124.68 crore being the amount payable to KUIDFC as contribution to Revolving Fund under JnNURM guidelines as demanded by KUIDFC has resulted in understatement of liability and consequent understatement of loss by ₹124.68 crore.
- Non-provision of ₹6.12 crore being amount payable as interest levied on delay in making payment towards building and other construction cess to Karnataka State Building & Other Construction Workers Welfare Board has resulted in understatement of liability, understatement of expenses and understatement of loss by ₹6.12 crore

Bengaluru Metropolitan Transport Corporation (2021-22)

### **Non-accounting of Penalty**

- Failure to charge penalty imposed on M/s Ashok Leyland towards low KPML and faulty LED Board and Voice Announcing System in respect of 450 vehicles amounting to ₹11.85 crore has resulted in understatement of claims receivable, understatement of income and overstatement of loss by ₹11.85 crore.

### **Non-provision of the interest on the delay in remittance of Labour Welfare Cess**

Non provision of ₹5.51 crore being the interest on the delay in remittance of Labour Welfare Cess payable to concerned Department for the year resulted in understatement of liability, expenditure and consequent understatement of loss by ₹5.51 crore.

Kalyana Karnataka Road Transport Corporation (2021-22)

**Inclusion of penalty/ liquidated damages under unspecified liabilities**

- Inclusion of penalty/ liquidated damages from the bills of M/s Tata Motors, M/s Ashok Leyland and M/s KMS Bus Body Builders under unspecified liabilities has resulted in overstatement of liabilities, understatement of income and consequent overstatement of loss for the year by ₹5.66 crore.

North Western Karnataka Road Transport Corporation (2021-22)

**Inclusion of Receivables without any formal assurance**

Inclusion of ₹52.51 crore and ₹26.34 crore under receivables towards Student Concession Passes and Senior Citizen concession, pending reimbursement from the Government without any formal assurance has resulted in overstatement of Current assets, understatement of expenditure and understatement of loss by ₹78.85 crore.

**खंड 5 : ज्ञान केंद्र विषयों में रुचि का विकास**

<b>Ministry/ Department/ Authority</b>	<b>Subject</b>	<b>Ref No. and Date</b>
<b>Department of Public Enterprises</b>	Payment of DA to Board level/ below Board level executives and non-unionized supervisors following IDA scales of pay in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) on 1987 and 1992 basis.	F.No.W-02/0003/2014-DPE(WC)-GL-XV/2024 Dated:22 <sup>nd</sup> July, 2024
	Board level and below Board level posts including Non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.1997 - Payment of IDA at revised rates.	No.W-02/ 0004 / 2014-DPE(WC)-GL-XVI/2024 Dated:22 <sup>nd</sup> July, 2024
	Board level and below Board level posts including Non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.2007 - Payment of IDA at revised rates.	No. W-02/0002/ 2014-DPE(WC)-GL,-XIV/ 2024 Dated:22 <sup>nd</sup> July, 2024
	Board level and below Board level posts including Non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.2017 — Payment of IDA at revised rates.	No.W-02/0039/ 2017-DPE (WC)-GL-XIII / 2024 Dated: 22 <sup>nd</sup> July, 2024
	Settlement of commercial disputes between Central Public Sector Enterprises (CPSEs) inter-se CPSE(s) and Government Departments/Organization(s) - Administrative Mechanism for Resolution of CPSE's Disputes (AMRCD) Reg	DPE-05/0002/2023— AMRCD Dated: 25 <sup>th</sup> July, 2024
	Simplification of the process for upgradation of the existing categorization of CPSEs.	PD-1 -08/002/2023-DPE 20 <sup>th</sup> May, 2024
	Board level and below Board level posts including Non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.2007 - Payment of IDA at revised rates-regarding	No.W-02/0002/2014-DPE(WC)-GL-VIII/2014 Dated:13 <sup>th</sup> June, 2024
	Board level and below Board Level posts including Non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.c.f. 01.01.2017 - Payment of IDA at revised rates-regarding.	No. W-021 0039 / 2017 - DPIr, (WC)-GL-V tt / 2024 dated 13 <sup>th</sup> June 2024
	Payment of DA to the CDA pattern employees of CPSEs on 5 <sup>th</sup> CPC pay scales governed by IIPPC recommendations w.c.f. 01.01.2024-reg.	No.2(42)/97-DPE (WC) GL.- XI2024 Dated: 14 <sup>th</sup> June, 2024
	Payment of DA to the CDA pattern employees of CPSEs on 6 <sup>th</sup> CPC pay scales governed by HPPC recommendations w.e.f. 01.01.2024	F'. No. 2(54) /08-DPE (WC)-GL-IX / 2024 Dated: 14 <sup>th</sup> June, 2024

	Payment of DA to Board level/ below Board level executives and non-unionized supervisors following IDA scales of pay in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) on 1987 and 1992 basis.	F. No.W-02 /0003/2014-DPE(WC)-GL-XI/ 2024 Dated: 14 th June, 2024
	Board level and below Board level posts including Non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.1997 - Payment of IDA at revised rates-regarding.	No.W-02/ 0004/ 2014-DPE(WC)-GL ,-XII/2024 Dated: 18 th June, 2024
	Uniformity in facilities available to women employees of CPSEs in line with similar facilities available to women employees of the Central Government.	File No. 6(1)2014-DPE (GM)-FT5-1505 Dated: 29th April, 2024
<b>Ministry of Corporate Affairs</b>	Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2024.	CG-DL-E-10092024-257026 dated 9 September 2024
	Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2024	CG-DL-E-09092024-257017 Dt. 9 September 2024
	Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rules, 2024.-Ind AS 116	CG-DL-E-09092024-257020 dt. 9 September 2024
	Clarification on holding of AGM and EGM through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) and passing of Ordinary or Special Resolution by the Companies under Companies Act 2013-Extension of Time limit- reg	File No. Policy-17/57/2021-CL-MCA dt 19 September 2024
<b>Securities and Exchange Board of India (SEBI)</b>	Master Circular for Alternative Investment Funds (AIFs)	SEBI/HO/AFD-1/AFD-1-PoD/P/CIR/2024/39 May 07, 2024
	Master Circular for Bankers to an Issue registered with SEBI	SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/072 June 03, 2024
	Master Circular for Credit Rating Agencies	SEBI/HO/DDHS/DDHS-POD3/P/CIR/2024/47 May 16, 2024
	Master Circular for ESG Rating Providers (“ERPs”)	SEBI/HO/DDHS/POD3/P/CIR/2024/45 May 16, 2024
	Master Circular for Foreign Portfolio Investors, Designated Depository Participants and Eligible Foreign Investors.	SEBI/HO/AFD/AFD-PoD-2/P/CIR/2024/70 May 30, 2024
	Guidelines on Anti-Money Laundering (AML) Standards and Combating the Financing of Terrorism (CFT) /Obligations of Securities Market Intermediaries under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and Rules framed there under.	SEBI/HO/MIRSD/MIRSD SECFATF/P/CIR/2024/78 June 06, 2024
	Master Circular for Infrastructure Investment Trusts (InvITs)	SEBI/HO/DDHS-PoD-2/P/CIR/2024/44 May 15, 2024

Master Circular for listing obligations and disclosure requirements for Nonconvertible Securities, Securitised Debt Instruments and/ or Commercial Paper	SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2024/48 May 21, 2024
Master Circular for Custodians	SEBI/ HO/ AFD/ AFD – PoD-2/ P/ CIR/ 2024/40 May 10,2024
Master Circular for Debenture Trustees	SEBI/HO/DDHS-PoD3/P/CIR/2024/46 May 16, 2024
Master Circular for Investment Advisers	SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2024/50 May 21, 2024
Master Circular for issue and listing of Non-convertible Securities, Securitised Debt Instruments, Security Receipts, Municipal Debt Securities and Commercial Paper	SEBI/HO/DDHS/PoD1/P/CIR/2024/54 May 22, 2024
Master Circular for Mutual Funds	SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2024/90 June 27, 2024
Master Circular for Portfolio Managers	SEBI/HO/IMD/IMD-POD-1/P/CIR/2024/80 June 07, 2024
Master Circular for Research Analysts	SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2024/49 May 21, 2024
: Master Circular for Stock Broker	SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2024/110 August 09, 2024
Master Circular for Stock Brokers	SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2024/53 May 22, 2024
Master Circular on Surveillance of Securities Market	SEBI/HO/ISD/ISD-PoD-2/P/CIR/2024/126 September 23, 2024
Master Circular for Electronic Gold Receipts (EGRs)	SEBI/HO/MRD/MRD-PoD-1/P/CIR/2024/87 June 24, 2024
Master Circular for Real Estate Investment Trusts (REITs)	SEBI/HO/DDHS-PoD-2/P/CIR/2024/43 May 15, 2024
Master Circular for Registrars to an Issue and Share Transfer Agents	SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 May 07, 2024
Master Circular on Surveillance of Securities Market	SEBI/HO/ISD/ISD-PoD-2/P/CIR/2024/99 July 09, 2024

## खंड 6: सूचना पत्र वर्ग पहेली (सितंबर 2024)

### आर-पार

1. Pre-acquisition dividend received by Holding company is credited to \_\_\_\_ account
4. When one of the existing companies take over business of another company or companies, it is known as
7. \_\_\_\_ asset class includes those assets which have only definite use and become valueless when the yield is over
11. The amount at which the asset is recognised in the balance sheet after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses is called its \_\_\_\_ value
14. Financial Instrument is a type of \_\_\_\_
15. A primary advantage of \_\_\_\_ accounting is that it provide accurate assets and liability valuation on a going basis to the user of the companies reported financial information
16. Electricity deposits are to be classified as \_\_\_\_ assets


### ऊपर से नीचे

2. While calculating purchase consideration \_\_\_\_ values of assets is to be considered.
3. \_\_\_\_ Pricing is an example of market approach
5. Highest and best use is one of the premises in valuation of \_\_\_\_ assets:
6. The long term assets that have no physical existence but, possess a value is known as \_\_\_\_ assets
8. When two or more companies carrying on similar business decide to combine, a new company is formed, it is known as
9. \_\_\_\_ risk is the risk that One party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party by failing to discharge an obligation
10. Indian accounting standards are the International financial reporting standards converged standards issued by the central government of India under the supervision and control of accounting standards board of ICAI and in consultation with

12. Excess of paid up value of the shares over cost of investment is considered as
13. Discounted cash flow is a example of \_\_\_\_ approach

### Newsletter Crossword (September 2023)

Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Mumbai



### उत्तर:

#### 1. आर-पार

2. Investment
4. Absorption
7. Wasting
11. Carrying
14. Contract
15. Fairvalue
16. Noncurrent

### ऊपर से नीचे

2. Net
3. Matrix
5. NonFinancial
6. Intangible
8. Amalgamation
9. Credit
10. NFRA
12. Goodwill
13. Income

खंड 7: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, मुंबई के स्टाफ एवं उपयोगकर्ता कार्यालयों के स्टाफ द्वारा लिखित/संकलित हिंदी के लेख/ कविता।



कुलदीप सिंह,  
कनिष्ठ अनुवादक

कुछ अविश्वसनीय, रोचक और हैरान करने वाले तथ्य।

कुलदीप सिंह, कनिष्ठ अनुवादक द्वारा संकलित

1. सपना और पढ़ना

पढ़ना और सपने देखना हमारे दिमाग के अलग-अलग भागों की क्रिया है इसीलिए हम सपने में पढ़ नहीं पाते...

2. कंप्यूटर का स्टैंडबाई मोड

कंप्यूटर के Standby Mode में मॉनिटर और हार्ड डिस्क ऑफ हो जाते हैं ताकि कम ऊर्जा खपत हो। किसी भी बटन को दबाने या माउस क्लिक करने से कंप्यूटर Standby Mode से बाहर आ जाता है।

3. टेंशन

जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने से आपका दिमाग कुछ समय के लिए बंद हो जाता है।

4. कॉबरा ट्री

दक्षिण अफ्रीका में कॉबरा नाम का पेड़ है। इस पेड़ के पास जब कोई इंसान जाता है तो उसकी डालियां उस इंसान को जकड़ लेती हैं और तब तक नहीं छोड़तीं जब तक वह व्यक्ति प्राण ना त्याग दे।

5. आकाश के तारे

हम रात को आकाश में लाखों तारे देखते हैं। वास्तव में ये तारे उस जगह नहीं होते, जहां हम देखते हैं। हमें तो उनके द्वारा छोड़ा गया कई लाख प्रकाश साल पहले का प्रकाश दिखाई देता है।

## 6. रॉकेट लॉन्चिंग

हमारे वैज्ञानिक पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण स्थल पर ले गए थे। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था, जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। इससे भी ज्यादा रोमांचक बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पैड बनाया था।

## 7. इसरो

104 सैटलाइट्स एकसाथ छोड़कर ISRO ने आज इतिहास रच दिया है। दुनिया में सिर्फ छह अंतरिक्ष एजेंसियां ही ऐसी हैं, जिनके पास अपनी धरती से सैटलाइट्स बनाने और छोड़ने की क्षमता है। ISRO भी उन छह एजेंसियों में से एक है।

## 8. समोसा नहीं भारतीय

समोसा दरअसल भारतीय नहीं है बल्कि मध्य एशिया से हमारे देश में आया।

## 9. शतरंज का आविष्कार

शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। इसे 'चतुरंग संस्कृत' के नाम से जाना जाता था।

## 10. सुपर कंप्यूटर

भारत उन तीन देश में से एक है, जिसने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है। इस लिस्ट में भारत के अलावा अमेरिका और जापान शामिल हैं।

## 11. याददाश्त

बचपन के कुछ सालों तक घटित होने वाली घटनाएं हमें याद नहीं रहतीं क्योंकि उस समय तक 'HIPPOCAMPUS' विकसित नहीं होता है, यह किसी चीज को याद रखने के लिए जरूरी है।

## 12. आम बजट

भारत में बजट की शुरुआत 7 अप्रैल, 1860 को हुई। स्वतंत्र भारत का पहला बजट देश के पहले वित्त मंत्री आर.के.शनमुखम चेटी ने 26 नवंबर, 1947 को पेश किया था और यह सिर्फ 7-1/2 महीने की अवधि के लिए था।

## 13. बर्फ

जब पानी से बर्फ बन रही होती तो लगभग 10% पानी तो उड़ ही जाता है। इसलिए ही हमारे फ्रिज में ट्रे पर पानी जमा हो जाता है।

## 14. दिमाग के फैक्ट

अगर 5 से 10 मिनट तक दिमाग में ऑक्सिजन की कमी हो जाए तो यह हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। दिमाग पूरे शरीर का केवल 2% होता है लेकिन यह पूरी बाँड़ी का 20% खून और ऑक्सिजन अकेला इस्तेमाल कर लेता है।



15. पहाड़ की चढ़ाई  
जब आप किसी सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपके घुटनों पर आपके शरीर का तीन गुना भार होता है।
16. ऑस्मियम  
विश्व की सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। इसकी 2 फीट लंबी, चौड़ी व ऊंची सिल्ली का वजन एक हाथी के बराबर होता है।
17. rhythm शब्द  
Rhythm अंग्रेजी में ऐसा सबसे लंबा शब्द है, जिसमें किसी vowel का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
18. Queue शब्द  
Queue अंग्रेजी का एकमात्र ऐसा शब्द है, जिसके आखिरी के 4 अक्षरों को हटा देने पर भी इसका उच्चारण वही रहता है।
19. नवजात के आंसू  
जब एक नवजात शिशु रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। उस समय तक उसकी अश्रु ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं, जिस कारण ऐसा होता है।
20. बालों का काला रंग  
हमारे बालों का काला रंग मेलनिन नाम के पिगमेंट के कारण होता है। वृद्धावस्था, पोषक तत्वों की कमी, सदमा, चिंता और शोक की स्थिति में मेलनिन का उत्पादन कम हो जाता है, जिस कारण बाल सफेद होने लगते हैं।
21. जबड़े की हड्डी  
दुर्घटना होने पर हड्डियां ही सबसे अधिक टूटती हैं, पर जबड़े की हड्डी बहुत ही मजबूत होती है। वह लगभग 280 किलो वजन भी सहन कर सकती है।
22. सफेद जहर  
चीनी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं, जिस कारण इसे सफेद जहर या सफेद मौत भी कहा जाता है।
23. शराब और लीवर  
अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस हो जाता है। इसकी वजह से लीवर पूरी तरह से खराब हो जाता है।
24. मच्छर और नीला रंग

अन्य रंगों के मुकाबले नीले रंग की ओर मच्छर ज्यादा आकर्षित होते हैं और O ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज्यादा काटते हैं।

#### 25. डकार और जम्हाई

खाना खाते समय जो अतिरिक्त हवा पेट में चली जाती है, वह डकार बनकर आवाज करती है। कई लोग जम्हाई बड़ी आवाज के साथ लेते हैं। जब शरीर को पूरी ऑक्सिजन नहीं मिलती है तो जम्हाई ले कर शरीर में ऑक्सिजन की कमी पूरी की जाती है।

#### 26. बिच्छू और शराब

अगर बिच्छू के ऊपर थोड़ी सी शराब डाल दी जाए तो वह नशे में पागल हो जाता है और खुद को ही डंक मारकर मर जाता है।

#### 27. शहद

शहद ही सिर्फ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो खराब नहीं होता है। मिस्र के फराओ के मकबरे में पाए गए शहद को जब पुरातत्वविदों ने चखा तो वह खाने योग्य हालत में था।

#### 28. शार्क और रे मछली

शार्क और रे मछलियों को कैंसर नहीं होता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि उनके शरीर में हड्डियां नहीं, कार्टिलेज होता है जिस कारण वे कैंसर से बची रहती हैं।

#### 29. मगरमच्छ

एक मगरमच्छ न तो अपनी जीभ को घुमा-फिरा सकता है और न ही कुछ चबा सकता है। इसके डाइजेस्टिव जूस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि स्टील की कील को पचा दे।

#### 30. छींक की रफ्तार

जब कोई इंसान छींकता है तो बाहर निकलने वाली हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है यानी एक्सप्रेस गाड़ी की रफ्तार से भी ज्यादा।

#### 31. ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी

हम पृथ्वी से ब्रह्मांड के सिर्फ 5 फीसदी हिस्से को देख पाते हैं। इसका 68 फीसदी डार्क एनर्जी और 27 फीसदी डार्क मैटर है, जो अदृश्य होते हैं। इनको शक्तिशाली दूरबीनों की मदद से भी नहीं देखा जा सकता है।

#### 32. अटल बिहारी वाजपेयी

भारत को परमाणु शक्ति बनाने में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अहम भूमिका निभाई। वैसे तो कई प्रधानमंत्री ने परमाणु परीक्षण के बारे में सोचा लेकिन इसके खिलाफ फैसला किया। अटल जी ने 1998 में प्रधानमंत्री का प्रभार संभालने के बाद गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। ये परीक्षण भारत के रक्षा इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए।

#### 33. सोना जरूरी

एक इंसान खाए बगैर तो कई हफ्ते गुजार सकता है, लेकिन सोए बगैर सिर्फ 11 दिन ही रह सकता है।



जय राम सिंह,  
कनिष्ठ अनुवादक  
कार्यालय प्रधान निदेशक  
लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई

आँवला का पेड़  
(कहानी)

प्रकृति आनन्दमयी है। लहलहाते खेत, नववधू का शरमाता-सिकुड़ता दिव्यरूप, आँगन में ठुमकता बच्चा, व्यवसायी का फलता-फूलता व्यवसाय, पंडितजी के यजमानों की बढ़ती संख्या, तरुण की उग रही मूँछें, तरुणी का परिवर्तित होता शरीर, साहुकार का बढ़ता सूद - ये सब आनन्द के स्रोत हैं, आहट हैं। ऐसा ही सुख बिहटावाली चाची को मिलता था जब वह अपने दरवाजे पर लगे आँवले के पेड़ को देखती थी। न जाने इस पेड़ में कौन-सा जादू था जो चाची इस पेड़ पर लट्टू रहती थी। पाँच-छह साल पहले चाचा ने नर्सरी से लाकर इस पेड़ को लगाया था। चाची ने इस पेड़ की देखभाल में ज़मीन - आसमान एक कर दिया था। भिन्न-भिन्न तरह के खाद, गोबर और समय-समय पर पानी: कोई कोर-कसर नहीं छोड़ा था चाची ने उस पेड़ को जल्दी से जल्दी बड़ा करने में।

चाची ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी। उन्हें हिन्दी में बात करना नहीं आता था। लेकिन चाचा पढ़े-लिखे थे। पास के ही शहर में सरकारी नौकरी में लगे थे। सुबह-सुबह साइकिल से अपने ऑफिस चले जाते और शाम को घर लौटते। इस तरह शहर से चाचा का रोजाना संबंध कायम हो गया था जो गाँव के अधिकांश लोगों को उपलब्ध नहीं था।

- "एक किलो नेत्रजन आ एक पाव सायनाइड लेले आएम" - ऑफिस के लिए निकलते चाचा को चाची की फरमाइश मिली।

- "नेत्रजन? इस नाम की कोई चीज बाज़ार में मैंने अभी तक नहीं देखी ? चाचा ने जिज्ञासु होकर कहा।

- सांझहीं रेडियो पर चौपाल में बटुक भाई कहइत रहथिन।" चाची ने रेडियो में जो सुना, वह बता दिया।

- "और सायनाइड? यह तो ज़हर होता है जी ? मन कर रहा है क्या ?" चाचा ने चुटकी लेते हुए कहा - "क्या यह भी बटुक भाई ने ही कहा है या मुझसे से अब आप ऊब गई हैं ?"

- "हम जे सुनली से बता देली, आगे अपने जानू"। दुनिया की हर घरवाली की तरह चाची का अधिकारपूर्ण वक्तव्य आ गया ।

- "ठीक है, किसी जानकार से पूछकर लेता आऊँगा ।" चाचा समझ गए थे कि ये सारी फरमाइशें आँवले के पेड़ के लिए ही थीं।

इस पेड़ को लगाने की भी एक कहानी है। विक्रमपुरवाली दादी के दरवाजे पर एक पुराना आँवला का पेड़ था । अभी भी वह पेड़ है - बड़े-बड़े फलवाला पेड़! लेकिन आजकल उसमें बहुत कम फल आते हैं । इतने विशाल पेड़ में ले-देकर सौ-दो सौ आँवले ही फलते होंगे । बुजुर्गों का कहना है कि यह पेड़ भी पहले खूब फलता था । मगर काल की चाल किसको छोड़ती है ? समय के साथ कम फलने लगा । अब तो ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे यह फल देना ही बिल्कुल बंद कर देगा । कालचक्र का यह प्रभाव प्रकृति के हर जीव पर समान रूप से लागू होता है। प्रकृति ने प्रत्येक जीव के लिए सृजन की आयु निश्चित कर रखी है। लेकिन इस आँवले के पेड़ का बुढ़ापा समय से पहले ही आ गया था । तीस-पैंतीस साल के पेड़ को बूढ़ा नहीं कहा जा सकता । विक्रमपुरवाली दादी का पेड़ गाँव भर में इकलौता बड़े फलवाला पेड़ था । वैसे तो देहाती आँवला (छोटे आकार का आँवला या आँवली) के दो-तीन पेड़ और भी थे गाँव में, लेकिन अच्छी जगह पर नहीं थे । कोई गोन्डुरा पर था तो कोई दूर की गाछी में। एक पेड़ तो नरसी बाबा के घर की पिछुअत्ती में था जहाँ जनिजात का निकसार रहता था । ले-देकर विक्रमपुरवाली दादी का पेड़ ही था जो घर के दरवाजे पर साफ-सुथरी जगह पर था । गाँव भर के लोग अछरनउमी (अक्षयनवमी) इसी पेड़ के नीचे मनाते थे । अछरनउमी वाले दिन विक्रमपुरवाली दादी के दरवाजे पर मजमा लग जाता था । बिना खर्च के उत्सव का माहौल बन जाता था । सुबह से ही पेड़ के नीचे झाड़ू - बुहाड़ू होने लगता था । पूरा दरवाजा गाय के गोबर से लीपा जाता था । घर-घर से चूल्हा - चउकी आने का सिलसिला शुरू हो जाता था । अन्न - पानी, अर्तन-बर्तन... पूरा रसोई उठाकर ले आना कोई ठठा थोड़े ही है? लेकिन यह काम बाल-मंडली का होता था । जनिजात की आमद सूर्यास्त के बाद होती थी। गाँव की अपनी मर्यादा होती है । आधुनिकता ज्ञान - विज्ञान में होना चाहिए, जीवन - मूल्य तो शाश्वत चीजें हैं । जितना अधिक सहेजे जाएँ उतना ही अच्छा। मान्यता के अनुसार अछरनउमी के दिन स्वाभाविक रूप से यदि रसोई में आँवले का पत्ता गिर जाए तो वह अमृत हो जाता है । अन्न-धन का भंडार अक्षय हो जाता है । एकाध घंटे में सबकी रसोई तैयार हो जाती । जिसकी रसोई में देर होती, उसके काम में बाकी सब लोग हाथ बाँटते थे ताकि उसकी रसोई भी जल्दी तैयार हो जाए। धीरे-धीरे खनिहार लोगों का आना शुरू हो जाता । खाने के पहले चौपाल, खाने के बाद चौपाल। प्रत्येक गृहलक्ष्मी के हाथ के गुणावगुणों का बखान होने लगता । हँसते - खेलते लोग अपने-अपने घर सोने के लिए चले जाते । यह अछरनउमी का त्योहार अन्न-धन या अमृत बाँटता या नहीं बाँटता, लेकिन अनायास ही सबका हृदय-मिलन करवा देता था । कहा भी जाता है कि हृदय का रास्ता पेट से होकर गुजरता है ।

बिहटावाली चाची का आँवला का पेड़ अपने कद्रदान को पाकर झूमने लगा, इतराने लगा । यह पेड़ शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की तरह रोज-रोज बढ़ने लगा । पाँच-सात साल का होते-होते लदकर फलने लगा । चाची अपने पेड़ की खूब प्रशंसा करती थी - "लछमिनिया पेड़ हय। जब से लगएलन हँऽ तब से घर में उन्नतिए-उन्नति हो रहल हय। चच्चा के प्रोमोशन हो गेल। बेटा के नोकरी लाग गेल। ओक्कर बियाहो हो गेल। सुन्नर-सुशील-सुपातर पुतोह घर में आएल। चारों तरफ खुशहालिए-खुशहाली छा गेल हय।"

बिहटावाली चाची के आँवले के पेड़ की ख्याति धीरे-धीरे पूरे गाँव में फैलने लगी । अब विक्रमपुरवाली दादी के दरवाजे की भीड़ धीरे-धीरे सरककर बिहटावाली चाची के दरवाजे पर आ गई । खुशहाली किसे नहीं चाहिए ? यही तो एकमात्र ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए पूरी मानव जाति साम-दाम-दंड-भेद आदि सब कुछ आजमाते रहती है । गाँव की अछरनउमी अब विक्रमपुरवाली दादी के दरवाजे से हटकर बिहटावाली चाची के दरवाजे पर आ गई । दादी अछरनउमी के स्थान में हुए परिवर्तन से जलने लगी ।

आँवले के पेड़ के दोनों दरवाजे आमने-सामने थे । बीच में खरंजे की सड़क थी । सुबह-शाम स्कूल आता-जाता चटिया-वृंद आते ही आँवले के पेड़ पर टूट पड़ता । दरवाजे का कोना-कोना छान मारा जाता, गिरे हुए आँवले को चुनने के लिए । आँवला खाकर दरवाजे पर ही गड़े चाँपाकल से पानी पी लेते । आह! क्या मिठास होती ! इस मिठास के सामने कौन-सी मिठाई टिकेगी ? लड़कपन इसी का नाम है । हर चीज में खुशी खोज लेने की कला जिसके पास है वह सचमुच बच्चा है, उसका बचपन जीवित है । लीची के पत्ते को पान की तरह चबा कर मुँह लाल कर लेना किसी समझदार मनुष्य के वश में नहीं है । लेकिन यह नासमझी भी नहीं है । यही है मासूम मस्ती जो शुद्ध है, निर्विकार है। वास्तव में यह बालपन का दिव्यत्व है।

जब से अछरनउमी का दरवाजा बदला तभी से विक्रमपुरवाली दादी के तेवर भी बदलने शुरू हो गए । पहले बच्चों को बुला-बुलाकर आँवले देती थी । अब डाँट - डपट करने लगी । एकाध साल डाँट-डपट में गुजर गए । बाद में इशारे से बताने लगी कि उस दरवाजे पर जाकर आँवला खोजो । एक बच्चा तब भी नहीं माना तो कसकर डपट दिया - "हियाँ तोहर सब के टीकी गाड़ल हऊ की? कुछ न मिलतऊ, ऊ दूरा पर जाके खोज।" उस बच्चे का कान पकड़ा और सड़क के दूसरी तरफ पहुँचा दिया । बाल-मंडली दोनों दरवाजे जाती - कोई भेदभाव नहीं था बच्चों के मन में। जैसे आँवले इस दरवाजे पर वैसे ही आँवले उस दरवाजे पर । जब आँवला - आँवला में कोई भेद नहीं है, तब दरवाजे - दरवाजे में क्यों?

बिहटावाली चाची के दरवाजे पर बाल-मंडली की गहमागहमी बढ़ने लगी । उन्हें यह बढ़ी हुई गहमागहमी को देखकर बड़ा अच्छा लगता । किसी संत ने कहा है कि बच्चों में भगवान बसते हैं । सौभाग्य की बात थी कि इतने सारे भगवान उनके दरवाजे पर एक साथ आँवला खोजकर खाते थे । किसी को आँवला देती थी, किसी को पानी। अपनापन बढ़ने लगा तब छोटे-मोटे टहल-टिकोले भी कराने लगी ।

इधर बिहटावाली चाची का आँवला का पेड़ हर साल जवान हो रहा था, उधर विक्रमपुरवाली दादी का आँवला - वृक्ष हर साल बूढ़ा हो रहा था । एक वृक्ष के फलने में बढ़ोत्तरी, दूसरे वृक्ष के फलने में हो रही घटोत्तरी के समानुपाती थी । पाँच-छह साल ही और बीते होंगे कि विक्रमपुरवाली दादी के आँवला - वृक्ष का फलना बिल्कुल बंद हो गया । एक समय था जब आँवला का पेड़ दादी के दरवाजे को गुलजार किए रहता था । आज वही आँवले का पेड़ है और वही दरवाजा है, सिर्फ समय बदल गया है । पेड़ भी वीरान और दरवाजा भी वीरान । शायद इधर की वीरानगी सामनेवाले दरवाजे की हरियाली बनकर झूम रही है ।

अब बिहटावाली चाची के आँवला-वृक्ष का एकछत्र राज कायम हो गया था । खुद विक्रमपुरवाली दादी का परिवार भी अब अछरनउमी का त्योहार अब बिहटावाली चाची के दरवाजे पर मनाने लगा । फलहीन पेड़ के नीचे अछरनउमी मनाना मना होता है । शरीर किसी भी खाद्य पदार्थ से उतना पुष्ट नहीं होता जितना संतोष और गर्व के भाव से होता है । गर्व से बिहटावाली चाची मोटी होने लगी । बाल-मंडली को हरकाना शुरू हो गया । टहल - टिकोला के साथ-साथ काम करवाना भी शुरू हो गया । एक आँवला - वृक्ष दरवाजे को कितना गुलजार कर सकता है, इस बात को अब पूरा गाँव महसूस कर रहा था । समय के साथ कुछ और दरवाजे पर बड़े फलवाले आँवला के पौधे लगाए गए । जिसके पास दरवाजा नहीं था, उसने खेत में लगा लिया । धीरे-धीरे गाँव के हर घर में आँवले का पेड़ हो गया । चार - पाँच साल में हर दरवाजे पर आँवले का पेड़ फलने लगा । जब सब के पास अपना - अपना पेड़ हो गया तब सामूहिक अछरनउमी भी बंद हो गई । अब किसी को नहीं मालूम कि किसके घर की गृहलक्ष्मी का कैसा हाथ है ।

बिहटावाली चाची के दरवाजे पर बाल-मंडली की आमद कम होते-होते बंद हो गई । चाची अब काम करवाना तो दूर, टहल-टिकोला करवाने के लिए भी तरसने लगी । मोटापा भी बढ़ता जा रहा था । एक दिन पता चला कि डायबिटीज और हाई बीपी ने भी जकड़ लिया है । विक्रमपुरवाली दादी और बिहटावाली चाची अपने - अपने दरवाजे पर बैठी कभी एक दूसरे को निहारती तो कभी अपने - अपने आँवले के के पेड़ को ।

(समाप्त)



कैप्टन सुधाकर सिंह,  
आसूचना कोर,  
भारतीय थलसेना

### समय

तीन पहर तो बीत गये,  
बस एक पहर ही बाकी है।  
जीवन हाथों से फिसल गया,  
बस खाली मुट्टी बाकी है।

सब कुछ पाया इस जीवन में,  
फिर भी इच्छाएं बाकी हैं  
दुनिया से हमने क्या पाया,  
यह लेखा - जोखा बहुत हुआ,  
इस जग ने हमसे क्या पाया,  
बस ये गणनाएं बाकी हैं।

इस भाग-दौड़ की दुनिया में  
हमको इक पल का होश नहीं,  
वैसे तो जीवन सुखमय है,  
पर फिर भी क्यों संतोष नहीं !

क्या यूं ही जीवन बीतेगा,

क्या यूं ही सांसें बंद होंगी ?  
औरों की पीड़ा देख समझ  
कब अपनी आंखें नम होंगी ?  
मन के अंतर में कहीं छिपे  
इस प्रश्न का उत्तर बाकी है।

मेरी खुशियां, मेरे सपने  
मेरे बच्चे, मेरे अपने  
यह करते - करते शाम हुई  
इससे पहले तम छा जाए  
इससे पहले कि शाम ढले

कुछ दूर परायी बस्ती में  
इक दीप जलाना बाकी है।  
तीन पहर तो बीत गये,  
बस एक पहर ही बाकी है।  
जीवन हाथों से फिसल गया,  
बस खाली मुट्टी बाकी है।



जयश्री चौधरी  
लेखिका

## लड़की व गुलाब का अनोखा रिश्ता

गुलाब के बिना गुलशन अधूरा है तो लड़की के बिना परिवार। गुलाब बगिया की रौनक है तो बेटी घर की शान है। जैसे गुलाब कांटों के बीच खिलता है वैसे ही हर लड़की को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। उपहार में गुलाब मिलना सभी को अच्छा लगता है लेकिन गुलाब से नहीं पूछा जाता कि वह उपहार बनना चाहता भी है या नहीं?

गुलाब की तरह बहुत सी लड़कियां भी सिर्फ उपहार बनके रह जाती हैं, दूसरों की खुशी के लिए उनकी खुशी के बारे में नहीं पूछा जाता, उनकी मर्जी जाने बिना ही उन्हें किसी के भी साथ बांध दिया जाता है। उनको ससुराल में समझौतों के साथ जीना पड़ता है।

गुलाब की कलियों की तरह बहुत सी लड़कियों को भी खिलकर अपनी खुशबू बिखेरने का मौका नहीं दिया जाता है और अधखिले गुलाब की तरह न जाने कितनी लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है।

क्या सचमुच हर लड़की गुलाब है? अगर हां तो क्या है गुलाब होने का दर्द? आखिर कैसा है लड़की व गुलाब का अनोखा?

रिश्ता एक गुलाब खास आपके लिए क्योंकि आप भी हो इसी गुलाब की तरह नाजुक.....

जब भी लाल गुलाब मिलता है तो मन भी उसी तरह खिल सा उठना है, गुलाब खूबसूरत है, नाजुक है, फूलों का राजा है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे भी एक खास एहसास छुपा है।

गुलाब व लड़की की कहानी कुछ-कुछ एक जैसी.....